

## परिशिष्ट सारणी 14 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष

(करोड़ रुपये)

| मद                                                                                  | 2004-05<br>(लेखा) | 2005-06<br>(बजट अनुमान) | 2005-06<br>(संशोधित अनुमान) | 2006-07<br>(बजट अनुमान) | प्रतिशत घटबढ़            |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                   |                         |                             |                         | कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4 | कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4 | कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5 |
| 1                                                                                   | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       | 6                        | 7                        | 8                        |
| <b>I. राजस्व लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (सामान्य सेवाएं ) (i से v)</b> | <b>1,83,961</b>   | <b>2,05,815</b>         | <b>1,98,501</b>             | <b>2,24,775</b>         | <b>7.9</b>               | <b>-3.6</b>              | <b>13.2</b>              |
| i. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं                                                 | 4,520             | 4,391                   | 4,836                       | 5,177                   | 7.0                      | 10.1                     | 7.1                      |
| ii. राजकोषीय सेवाएं                                                                 | 11,344            | 10,240                  | 10,553                      | 10,823                  | -7.0                     | 3.1                      | 2.6                      |
| iii. ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती (1+2)                                                | 92,607            | 98,689                  | 95,354                      | 1,06,045                | 3.0                      | -3.4                     | 11.2                     |
| 1. ऋण में अथवा बचाव के लिए विनियोग                                                  | 4,618             | 5,391                   | 6,361                       | 6,620                   | 37.7                     | 18.0                     | 4.1                      |
| 2. ब्याज भुगतान                                                                     | 87,989<br>(23.6)  | 93,298<br>(21.7)        | 88,994<br>(19.6)            | 99,425<br>(19.1)        | 1.1                      | -4.6                     | 11.7                     |
| iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)                                                         | 30,744            | 37,657                  | 36,597                      | 43,396                  | 19.0                     | -2.8                     | 18.6                     |
| 1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं                                                           | 1,152             | 3,128                   | 2,453                       | 2,929                   | 113.0                    | -21.6                    | 19.4                     |
| 2. जिला प्रशासन                                                                     | 3,203<br>(0.9)    | 4,069<br>(0.9)          | 4,186<br>(0.9)              | 4,887<br>(0.9)          | 30.7                     | 2.9                      | 16.8                     |
| 3. पुलिस                                                                            | 19,172            | 21,053                  | 21,543                      | 23,448                  | 12.4                     | 2.3                      | 8.8                      |
| 4. लोक निर्माण                                                                      | 2,825             | 3,073                   | 3,254                       | 4,227                   | 15.2                     | 5.9                      | 29.9                     |
| 5. अन्य@                                                                            | 4,393             | 6,334                   | 5,161                       | 7,904                   | 17.5                     | -18.5                    | 53.2                     |
| v. पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं                                                   | 44,746            | 54,838                  | 51,162                      | 59,333                  | 14.3                     | -6.7                     | 16.0                     |
| <b>II. पूंजी लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (1+2)</b>                      | <b>4,337</b>      | <b>5,633</b>            | <b>4,688</b>                | <b>5,451</b>            | <b>8.1</b>               | <b>-16.8</b>             | <b>16.3</b>              |
| 1. विकासेतर (सामान्य सेवाएं)                                                        | 2,670             | 4,458                   | 3,646                       | 4,395                   | 36.5                     | -18.2                    | 20.6                     |
| 2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क +ख)                                             | 1,667             | 1,175                   | 1,042                       | 1,055                   | -37.5                    | -11.3                    | 1.3                      |
| क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)                                                  | 227               | 461                     | 336                         | 345                     | 48.0                     | -27.2                    | 2.8                      |
| ख) विविध                                                                            | 1,440             | 714                     | 707                         | 710                     | -50.9                    | -1.0                     | 0.5                      |
| <b>III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)</b>                                              | <b>1,88,298</b>   | <b>2,11,447</b>         | <b>2,03,189</b>             | <b>2,30,225</b>         | <b>7.9</b>               | <b>-3.9</b>              | <b>13.3</b>              |
| <b>IV. कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में III</b>                                | <b>32.6</b>       | <b>36.5</b>             | <b>33.1</b>                 | <b>34.3</b>             |                          |                          |                          |
| <b>V. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में III</b>                                     | <b>33.3</b>       | <b>36.5</b>             | <b>33.4</b>                 | <b>34.5</b>             |                          |                          |                          |

@ इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और प्रशासन, जेल, आदि का व्यय शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

3. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।